

स्वर्ण बॉण्ड योजना: पूर्ण विवरण-III



- ✚ प्र. ब्याज दर क्या है और ब्याज की राशि किस प्रकार अदा की जाएगी?
- ✚ उ. बॉण्ड में निवेश की प्रारंभिक राशि पर 2.75 प्रतिशत (नियत दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
- ✚ ब्याज की राशि हर छः महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- ✚ अंतिम ब्याज राशि मीयाद पूरी हो जाने पर मूलराशि के साथ अदा की जाएगी।

- ✚ प्र. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड बेचने के लिए किन एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है?
- ✚ उ. ये बॉण्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/ सीएचसीआईएल कार्यालयों/ चुनिंदा डाकघरों से सीधे/ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड या उनके एजेंटों के माध्यम से बेचे जाएंगे।

- ✚ प्र. ग्राहकों को धारिता प्रमाणपत्र कब जारी किए जाएंगे ?
- ✚ उ. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड जारी किए जाने की तारीख को ग्राहक को धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

- ✚ प्र. क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकती/ सकता हूं?
- ✚ उ. हां। ग्राहक सूची में दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- ✚ प्र. बॉण्ड का मूल्य क्या होगा?
- ✚ उ. बॉण्ड भारतीय रुपये में होगा और इसका मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत बंद मूल्य पर आधारित होगा। निर्गम मूल्य की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाएगी।

- ✚ प्र. मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे क्या मिलेगा?
- ✚ उ. बॉण्ड की मीयाद पूरी हो जाने पर जितने ग्राम के स्वर्ण लिए भारतीय रुपये में आपने निवेश किया था उतनी मात्रा के लिए प्रचलित बाजार भाव पर आपको चुकौती राशि प्राप्त होगी।
- ✚ चुकौती मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत बंद मूल्य पर आधारित होगा।